Ritco Logistics Limited

Date: 24/05/2023

To

The Manager Listing Department

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai-400051

NSE SYMBOL: RITCO

То

The General Manager
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

BSE Scrip Code: 542383

Sub: Newspaper Publication pertaining to financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2023

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publication pertaining to the extract of the consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023.

The said extract of the financial results was published in Financial Express (English), Delhi and Jansatta (Hindi), Delhi on May 24, 2023.

This is for your information and records.

This will also be hosted on Company's website at www.ritcologistics.com

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Ritco Logistics Limited

GITIKA ARORA Digitally signed by GITIKA ARORA Date: 2023.05.24 13:43:40 +05'30'

Gitika Arora

(Company Secretary cum Compliance Officer)

Enclosed: as above



Consider it Done
Corp. & Admin. Office: "RITCO HOUSE" 336, Phase-II, Udyog Vihar, Gurugram - 122016,

Haryana Ph.: 0124-4702300/301 E-mail: ho@ritcologistics.com CIN No.:

L60221DL2001PLC112167 Regd. Office: 508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre, Janakpuri,

New Delhi-110058 Ph.: 011-25522158

held on Tuesday, the 30th day of May, 2023 at 3:30 at 1/1 Kirti Nagar, Main Road, New Delhi-110015, to inter alia, consider and Approve Audited Financial Results for the 4th Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2023. Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company is already closed till the expiry of 48 hours after the declaration of Audited Financial Results for the 4th Quarter and Financial Year

Deepti Gupta Company Secretary Place: New Delhi & Compliance Officer Date: 23.05.2023 M. No. A55551

Registered Office: B1/26, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301 CIN No.: L25201UP1992PLC018150, Tel. No.: 8447772518 Website: www.sudev.co.in.

Notice Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 30th May, 2023, at 03:30 p.m. at its Registered office at B1/26, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301 inter-alia to consider and take on record the

This Intimation is also available on the Company's

of Insider trading) Regulations, 2015 and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Company's securities was closed from Saturday 01st April, 2023 and will open 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchanges.

Place: Uttar Pradesh Rajiv Agarwal Dated: 23.05.2023

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED Retail Assets Central Processing Centre, 2nd Floor, Administrative Office Building, Regd. Office: 208. Magnum House-II. Garh Road, Meerut (U.P.) CORRIGENDUM

Officer Cell number 9068003642 is printed.

It should be read as Cell Number 96347 90775

Supreme Commercial

Enterprises Limited

Regd. Office: Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina

New Delhi - 110028

CIN: L51909DL1983PLC016724

Ph.: 9350150766

Result of the Company for the quarter and year

The information in the above notice is also

available on the website of the Company

Limited

Company Secretary

Sd/-

www.supremecommercial.co.in.

Emailld: supremecommercial@gmail.com

Karampura Community Centre, New Delhi 110015 Website: www.jtel.co.in, inancial Express and Amar Ujala Newspaper on Email: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com In Terms and Conditions: Sr. No.14 Authorise

NOTICE Pursuant to Provision of Regulation 47 and

29 of the SEBI (Listing Obligation and **Authorized Officer** Disclosure Requirement) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on Tuesday, 30th May 2023, to inter-alia, consider Audited Financial Results of the Company for the Financial Year and Quarter ended 31st March, 2023. In Terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and Company's internal code for prevention of insider trading, the trading window for dealing in securities of

CIN: L74999DL1982PLC014411


website at www.msei.in.

By Order of the Board For Jagat Trading Enterprises Limited Nirmal Kumar Taparia

Company Secretary & Dated: 23/05/2023 Compliance Officer ACS: 14371 Place: New Delhi



No.



RITCO LOGISTICS LIMITED

Corporate Identity Number: L60221DL2001PLC112167

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Particulars

Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or

Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or

Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (After Exceptional and/or

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss)

for the period (After tax) and other comprehensive Income (After Tax)]

Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited

The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com

Sanjeev Kumar Elwadhi Managing Director

3,387.42

2,471.14

10.10

Place: Gurugram

Date: 24.05.2023

NORTHERN RAILWAY Azadi Ka CORRIGENDUM State to Another in respect of Amrit Mahotsav Section 13 of Limited Liability Ref: (i)Tender Notice No. 11/2023-2024 dated 04.05.2023(S.N.03,&06) Partnership Act, 2008

In reference to above tender the tender Qty has been revised .All other terms and conditions remain unchanged. The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in. SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 1564/23

(ii) Tender No. 18231272 due on 29/05/2023

(iii) Tender No. 18230163 due on 31/05/2023

Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of public Company into a private Company BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Northern Region, New Delhi Bench, New Delhi

"FORM NO. INC-25A"

the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of

M/S JINDAL PETROLEUM LIMITED having its registered office at Jindal Centre 12, Bhikaiji Cama Place New Delhi-110066Applicant

Notice is hereby given to the general public that the Company intending to make an application to the Central Governmentunder section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private imited Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 22" May, 2023 to enable the Company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change/statusof the Company may deliver or cause to be delivered or send b registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director at 'B-2 WING, 2nd FLOOR PT DEEN DAYAL ANTYODAYA BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003", within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

Place: New Delhi Nand Kishor Sharma Date: 24.05.2023 (Director) DIN: 08131437 Registered Office Address : Jindal Centre 12, Bhikaiji Cama Place New Delhi-110066

AVON MERCANTILE LTD CIN: L17118UP1985PLC026582

Regd. Off.: Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No. 1-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida,

Uttar Pradesh-201301

Website: http://www.avonmercantile.co.in/ NOTICE

With reference Regulation 47(1) (a) read

with Regulation 29 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on, Tuesday, the 30th May, 2023 at 4:30 P.M. at Conference Room, Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No. I-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301 to consider and take on record the audited financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2023, pursuant

to the Regulation 33 of the LODR Regulations. The audited results of the Company, once approved by the Board, shall be available on the website of the Company viz. http://www.avonmercantile.co.in/ and on the website of the stock exchanges viz.

https://www.bseindia.com/ and https://www.cse-india.com/ for Avon Mercantile Ltd

Company Secretary

Gurgaon-122017 (HR) INBORN REALITY INDIA LLP

(Designated Partner) DPIN: 00751989 Add: B-9/6337, Vasant Kunj Delhi-110070

Jindal

44981

45705

70000439852

45709

46133

46134

46137

70000522174

70000522230

70000522300

46143

46144

46145

70000522352

70000522384

70000522470

46150

46555

70000522525

70000532331

00000532412

53846

53849

53852

56753

56755

0000532801

56760

56761

57722

57723

57726

46556

74571

270000569725 2

78769

78770

270000610048

270000610084

270000610099

78773

270000610116

78775

270000610160

70000610170

78776

270000610177

78777

270000610206

270000610216

78779

78780

270000610287

70000439608 270000569605

70000439845 270000569790

70000439870 270000610017

70000439942 270000610044

270000522236 270000610157

70000522290 270000610162

70000522293 270000610163

0000522328 270000610214

0000522416 270000610291

70000522421 270000610292

(In lakhs except EPS)

Year Ended

31st March

2023

(Audited)

75,114.62

3,348.19

3,348.19

2,431.91

2,436.72

9.94

9.94

2,220.10

1,627.78

6.65

6.65

Quarter Ended

31st Dec,

2022

(Unaudited)

19,458.06

832.29

832.29

644.09

639.20

31st March,

2023

(Audited)

19,673.53

918.31

918.31

587.69

587.67

774.86

578.26

2.36

2.36

迟 बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda ZOSARB, SCO 905, SECOND FLOOR. SECTOR 13, MANIMAJRA, CHANDIGARH-160101 feraur D dan


PUBLIC NOTICE

Re: Advance account M/s JMJ Industries Pvt. Ltd. with our ZOSARB, Chandigarh Branch - Publication of Photographs of WILFUL DEFAULTERS. Notice is hereby given to the public at large that BANK OF BARODA has declared the following persons as WILFUL DEFAULTERS, in terms of Bank's/RBI's extant

(1) Mr. Sunil Jindal (Borrower - Director) (2) Mr. Dai Ram Jindal (Borrower Director) (3) Ms. Manju Jindal (Borrower - Director) (4) Mr. Yatin Jindal (Borrower - Director)

Bank had sent suitable communication to the Borrower/Guarantor informing the decision of the Bank to declare them/him/her as a WILFUL DEFAULTER.

As permitted by the Reserve Bank of India, Bank publishes the photographs of the WILFUL DEFAULTERS, for the information of public at large.



Jindal

guidelines, complying with the due process prescribed.

Ms. Manju Jindal

Jindal For Bank of Baroda ZOSARB Branch, Chandigarh

Mr. Yatin

This is to inform to Public that the advertisement regarding the missing covernotes along wit Book lds published on 11.12.2022 in Financial Express Delhi and Jansatta Delhi editions stan-null & void. Now the actual and correct Covernotes pertaining to The Oriental Insurance Company Ltd, Branch Office, 1893, Chandrii Chowk, Delhi-110006 (Office Code 271602). The Oriental Insurance Company Ltd, CBO-15, Sachdeva Tower, 5th Floor, Sector 8, Rohin Delhi-110085 (Office Code-215402) along with Book ID of The oriental insurance Co Ltd. have been found missing. Kindly note that Cover Note With following Numbers are invalid & hence nsurance Co. will not be liable to pay any claim what so ever arising on from these. 70010 270000428649 270000437044 270000534395 270000568680 34854 34960 41332 70013 270000428652 270000437058 270000534409 569257 270000568757 34961 270000437083 70000230500 270000568765 270000428676 270000437066 270000534433 569259

PUBLIC NOTICE

270000534693 21000031100 70000439600 270000569539 270000428984 270000437449 65161 270000428992 43149 270000534707 0000428995 270000437490 270000534725 21000031105 34975 270000437492 70000439617 270000569705 270000429536 270000437496 270000534726 70000429547 43410 270000534729 628297 34979 270000438709 21000031116 270000439841 270000569778 270000429637 45705 270000534750 1000031116 34982 270000439835 65164 628299 270000569793 270000429713 270000439836 270000534796 21000031120 46138 270000534800 000031122 70000439859 270000610009 270000427901 270000522189 65165 628301

270000522193 9 21000031127 270000427925 270000522198 65166 21000031127 35754 46566 270000534838 628303 70000429870 270000522780 0000534845 21000031130 35756 65169 21000031132 270000429922 270000522783 70000534916 628306 70000522099 270000610093 270000429925 46568 270000568047 21000031138 35757 270000522834 66566 21000031139 270000429945 270000522839 270 628308 35860 46569 66573 21000031142 270000433016 270000522864 70000568232 TO 70000433026 270000522889 70000568234 74574

628309 270000433048 270000522894 210000031146 0000433062 46571 76442 631411 70000433065 270000522915 7000056984 21000031404 35863 46573 270000569843 631412 0000433078 270000522969 76443 21000031406 35865 70000433147 48140 270000589871 631415 0000433148 270000531050 76448 21000031412 270000433152 270000531104 76449 210000314150 0000433170 270000531113 270000570007 631416 35867

21000031504

21000031504

21000031504

632461

21000031505

21000031506

21000031507

632462

210000031508

21000031509

21000031509

21000031510

21000031511

21000031512

MISC.

27000028086

39767

27000028090

27000028090

27000028092

45712

27000029462

27000029464

27000029473

46576

46582

27000029492

27000029493

27000029493

27000029494

27000029494

270000364978

270000364990

270000385400

27000038541

34867

27000028050

270000280609

27000028062

270000280655

270000280658

270000280670

34873

270000280764

42805

270000294507

27000029450

270000294594

270000294595

270000294596

58611

27000036489

70000354896

75183

70000365139

111106

7000041738

111161

178038

TO

MARINE CARGO

34855

27000080626

27000080632

34857

27000080691

27000080899

Ph:-9968954822

27000042880

270000417357

27000029478

45716

632463

21000031508

270000570268

270000570301

270000570446

76468

95133

70000611089

270000671201

111815

112141

112143

000067390

270000673907

270000673914

112150

112151

270000674125

270000674131

112156

270000674233

270000674254

112159

270000674301

112160

112161

270000674392

270000674427

117363

117367

270000680650

117369

7000068071

117377

270000703479

270000674337

00000570476

70000433179 270000531135 270000610300 270000570047 48145 21000031417 78782 270000433219 270000531160 270000610335 270000433220 270000531161 76453 210000314185 0000570112 270000610340 0000433274 48146 76454 70000522502 270000610349 35871 270000531191 70000570141 631418 270000570145 21000031420 270000522510 27000061035 00000433284 48147 78784 270000433285 270000531206 270000610381 270000570231 210000314229 0000433293 48148 70000433300 270000531243 270000570246 632460 70000522546 270000610385 78785 270000570266

50393

50395

51415

270000531924

35872 48149 270000610405 46557 70000522553 78786 00000433322 48150 0000433323 0000531292 70000522562 270000610445 000433325 50390 270000610449 35874 270000531377 0000433358 50392 0000433368 270000531433 270000610475 35875 270000531438

46558 270000522590 270000610464 46560 70000433394 35877 270000531453 80871 70000433447 270000531475

270000522637 270000610477 270000522643 270000610484 70000522650 270000609816 270000609823 270000433448 0000522694 80876 270000609941 48152 53842

270000649013

100059

100061

100062

270000649136

270000649140

100063

000532487 270000649014

000532737 270000649126

0000532780 270000649137

0000532902 270000649166

70000673417 70000433468 270000531525 70000433473 50396 270000609999 0000433474 270000531530 84031 70000673783 35879 270000531544 270000610646 0000433488 270000531548 95147 2700000673797 0000433490 270000611429 70000433498 270000531557 000532428 270000611440 2700000673858 70000532432 270000611445 270000673858 0000434572 270000531700 100057 36656 51414 0000532461 270000649006

0000434638

36657

270000649019 000434660 0000532513 270000649020 112144 0000434887 270000531937 70000673931 70000434670 270000531938 70000532585 270000649053 70000532593 270000649064 112145 70000434693 270000531944 270000673961 270000531946 70000532689 270000649103 000434722 270000649107 270000531950 36660 0000532714 270000649120

112147 270000674006 7000043472B 51417 70000434736 270000531955 270000674007 112148 70000434749 270000531959 270000674028 70000434757 270000531975 270000674040 51418 270000434759 270000531986 270000674041 0000434777 270000531987 70000674066

51423

53840

53851

59439

270000533822

59441

59442

59443

59444

270000533944

270000438614 270000533960

270000437270 270000534072

59445

59446

59447

70000436706 270000534012 270000680627

62280

270000534054

62282

62283

270000437350 270000534142 270000680899

62284

270000437351 270000534160 270000680904

62285

270000436734 270000534057 270000680686

0000438855 270000533976 270000680539

270000534008 270000680604

270000534081 270000680717

270000534103 270000680742

270000534182 270000703283

40425

70000438611

70000436703

00000436711

40430

41316

41318

270000437345

270000437348

41319

41320

0000437295

270000532279 270000674237

270000434780 270000531988 100064 70000434795 70000532950 270000649195 270000434796 270000531994

270000649198 100065 70000533020 270000649202 270000434824 270000532085 37305 270000649206 70000533036 270000649208 770000533039 270000649216 270000435014 70000533047 270000649222

40419 70000438461 270000532286 270000674240 100068 770000533065 270000649290 270000436473 270000532269 40421 70000533067 270000649298 70000436506 270000532557 270000674269 270000385138 270000436513 100069 7000064930 40422

70000533069 270000649300 270000436534 270000649324 270000436537 270000533867 270000674307 100070 40423 70000436554 270000533893 000436567 270000649360 70000436569 270000533919 270000674365

70000533122 270000649306 57727 70000533137 270000649333 40424 0000436579 270000533927 104750 270000436598 270000533943 270000674400

57728 70000533155 270000649364 70000533167 270000649372 57729 70000533192 27000064943 270000649432 70000533255 270000649433 270000649434 0000533303 270000649439 70000533309 270000649443

270000649449 270000438657 0000533349 104752 270000649480 270000649481 270000649484 70000533376 270000649492

57736 59419 104756 70000533379 70000533383 270000649677 59421 70000533427 270000649383 70000533444 270000649386

270000649387 270000437296 270000534097 270000680726 70000533452 270000649394 270000437297 70000533463 281157 270000810363 270000437340 270000534115 270000680749 70000533489 34646 70000533498 270000428101 270000437346 270000534118 270000680767 70000533516 270000428125 270000437349 270000534136 2700006808

000533534 270000428201 59427 000533588 270000428221 270000437354 270000534163 270000680916 59428 70000533618 270000428451 270000436752 270000534177 270000703277 34663

0000533748 270000428472 270000436776 270000534185 270000703288 000568087 270000428526 270000436788 270000534222 270000703477 66572 000568211 270000428534 0000568311 270000428543 270000436816 mmmssssss 270000428550 270000436838 270000534259 70000568336

70002

70000568492

70000568639

New Delhi

41321 70000436786 34664

270000428602

270000428607

34667

70000568519 270000428603 270000436999

70000568637 270000428613 270000437001

70000568648 270000428626 270000437019 62293

270000436794 70000568459 270000428579 270000428590 270000436949

41330

70000568660 270000428635 270000437030 270000534381 215402242697

270000428536 270000436802 270000534247 270000703487 62288 270000534256 270000704295 569248 270000534261 215402242531 270000428551 270000436883 270000534269 215402242545 70000568452 270000428552 270000436884 270000534270 215402242546 41327 270000534272 215402242568 62290 34666 270000436979 62291 70000568500 270000428601 270000436990 270000534337 215402242633 Limited. 3rd Floor 270000436997 270000534342 215402242646

270000534346

Sd/- Soran Singh Manager I/C, RTC The Oriental Insurance Co. NBCC Centre. Okhla Ph-1. 569253 21540224265 Pocket-A. 270000437003 270000534355 215402242664 Regional Office-1 New Delhi.

financialexp.epapr.in

Dated: 23.05.2023

Bijnor Road, Amroha (U.P.)

Branch: Lakra, Amroha (U.P.)

Bazar Batwal, Amroha (U.P.)

This is to bring to your notice that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be

ended on 31st March, 2023 For Chamak Holdings Limited

SUDEV INDUSTRIES LIMITED E-mail: info@sudev.co.in

ended 31st March. 2023. Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window for dealing in securities of the Company is closed from 1st April, 2023 and will remain closed up to 48 hours of the conclusion of the Board Meeting in which Standalone and Consolidated Financial Audited financial results of the Company for the Result of the Company for the quarter and year Quarter and Year ended on 31" March, 2023. ended 31st March, 2023 are to be considered

and approved.

Date: 23.05.2023

Place: Delhi

website at www.sudev.co.in and on the Stock Exchange website at www.bseindia.com Further, in accordance with the SEBI (Prevention

For Sudev Industries Limited Sd/-

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

(Prospect No

756768)

Udvog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Harvana) and Branch Office at Office No 1. First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4. Vaishali, Ghazjabad Uttar Pradesh - 201010/ A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASI for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

IOI TEAIIZALIOIT OF THE L-FT	or realization of in E-1 in E-5 dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website. www.bankeauctions.com.						
Borrower(s) / Co-Borrower(s) /	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable Date of Physical property/ Secured Asset Possession		Reserve Price			
Guarantor(s)	28-Jun-2022 & Rs.17,27,657/-	All that part and parcel of the property	08-May-2023	Rs. 11,20,000/- (Rupees			
1. Mr. Surjeet Singh	(Rupees Seventeen Lakh Twenty Seven Thousand Six	bearing Flat no. FF-3 (1st Floor) on Plot No-B-177/178, area admeasuring 46.45	Total Outstanding As On Date 09-May-2023	Eleven Lakh Twenty Thousand Only)			
2. Mrs.Tara Devi	Hundred Fifty Seven Only)	sq. Mtr., Khasra No-212,Rail Vihar	Rs. 16,82,179/- (Rupees	Earnest Money Deposit			
(Prospect No IL10164097)	Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	Hadbast Village Shadulhabad Tehsil Lone District Ghaziabad 201014	Sixteen Lakh Eighty Two Thousand One Hundred Seventy Nine Only)	(Rupees One Lakh Twelve Thousand Only)			
1. Mr. Prabhat	09-Dec-2021 & Rs.16,19,167/-	All that part and parcel of the property	09-May-2023	Rs. 12,00,000/-			
Kumar S	(Rupees Sixteen Lakh	bearing Flat No S-1 On Second Floor,	Total Outstanding As On	(Rupees Twelve			
2. Mrs. Kamla Rani	Nineteen Thousand One	With Roof Rights, area measuring 800 sq.	,	Lakh Only)			
(D	Hundred Sixty Seven Only) Bid Increase Amount	ft., built on Plot No.B-1/16 Situated In The Residential Colony Dlf Ankur Vihar In The		Earnest Money Deposit			
(Prospect No		Area Of Village Sadullahbad Tehsil And		(EMD) Rs.1,20,000/- (Rupees One Lakh Twenty			
848340)	Five Thousand Only)	Dist Ghaziabad, Pincode: 201102, U.P.	Only)	Thousand Only)			
1. Mrs. Nilima	20-Feb-2020 &	All that part and parcel of the property	11-May-2023	Rs. 26,88,000/- (Rupees			
Sahay 2. Mr. Birendra	Rs.9,94,028/- (Rupees Nine Lakh Ninety Four Thousand	bearing Apartment No. 1102, Type 2 BHK, 11th Floor, Block D, Leasable area	Total Outstanding As On Date 17-May-2023	Twenty Six Lakh Eighty Eigh Thousand Only)			
Kumar Sahay	Twenty Eight Only)	960 Sq. Ft., situated in Shivalik Homes- 2, Plot No GH-01 C, Sector 16, Greater	Rs.14,07,563/- (Rupees	Earnest Money Deposit (EMD)			
(Prospect No	Bid Increase Amount	Noida(west) Uttar Pradesh	Fourteen Lakh Seven	Rs.2,68,800/- (Rupees Two			
760964)	Rs. 40,000/- (Rupees Forty Thousand Only)	, ,	Thousand Five Hundred Sixty Three Only)	Lakh Sixty Eight Thousand Eight Hundred Only)			
1. Mr. Raghuvansh		All that part and parcel of the property		Rs. 26,88,000/- (Rupees			
Kumar Srivastava	(Rupees Ten Lakh Eighty Eight Thousand Three	bearing Apartment No504, Type 2 BHK, Floor 5th, Block C1, Leasable	Total Outstanding As On	Twenty Six Lakh Eighty Eight Thousand Only)			
2. Mrs. Richa	Hundred Sixty Eight Only)	aarea 930 Sq. Ft., Shivalik Homes-2,		Earnest Money Deposit (EMD			
Srivastava	Bid Increase Amount	sitauted at Plot No-GH-01C, Sector -16		Barriest Money Deposit (EMD)			

Mode Of Payment:-EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www.bankeauctions.com and pay through link available for the property/ Secured Asset only. Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public auction For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001. **TERMS AND CONDITIONS:-**

EMD Last Date

26-Jun-2023 till 5 pm

Bid Increase Amount sitauted at Plot No-GH-01C, Sector -16, (Rupees Fifteen Lakh Sixty)

Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301.

Rs. 40,000/- (Rupees Forty | Greater Noida (West), District Gautam

Thousand Only)

Date of Inspection of property

23-Jun-2023 1100 hrs -1400 hrs

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the pay ment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 min utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75' of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of paymen The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings

support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- auction.hl@iifl.com Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Lav

For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:

10. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date o Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place:- Ghaziabad/ Noida . Date: 24-May-2023 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

Rs. 2,68,800/- (Rupees Two

Lakh Sixty Eight Thousand

Eight Hundred Only)

Date/ Time of F-Auction

29-June-2023 1100 hrs.-1300 hrs.

For and on behalf of the Board Jindal Petroleum Limited

Date: 23.05.2023 Place : Noida

Minda I Connect Private Limited,

Pursuant to Rule 35 of National Company Law Tribunal Rules, 2016 BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI

C.P.(CAA) - 30/ND/ 2022, Connected with C.A.(CAA) - 66/ND/ 2021 In the matter of the Companies Act, 2013 In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation between

Incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013, Having its registered office at B-64/1,

Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110052 ... Transferor/Applicant Company No. 1 **Uno Minda Limited**

(Formerly known as Minda Industries Limited), Incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, Having its registered office at B-64/1,

Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110052 ...Transferee/ Applicant Company No. 2

their respective Shareholders and Creditors

Private Limited ("Transferor/ Applicant Company No. 1") and Uno Minda Limited ("Transferee/ Applicant Company No. 2") (hereinafter collectively known as Applicant Companies) and their respective shareholders and creditors, was filed by the Applicant Companies on February 26, 2022 ("Petition") before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("Hon'ble NCLT"). Thereafter, the Applicant Companies filed an application before the Hon'ble NCLT being

Applicant Companies to consider the modification and the modified Scheme. The said meetings have been duly held by the Applicant Companies on May 03, 2023, and shareholders and creditors of the respective Applicant Companies have considered the modification and approved the modified scheme with requisite majority in the said Now vide order dated May 19, 2023, the Hon'ble NCLT has fixed the Petition for sanctioning the modified Scheme on July 07, 2023. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send a notice to the Hon'ble NCLT and to the

Advocates of the Applicant Companies at the address mentioned below, of his/her intention, signed by him/her or their advocate, with his/her name and address, so as to reach the Advocates of the Applicant Companies not later than 2 (two) days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where any such person seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the Advocates of the Applicant Companies to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for Anuj Shah

DMD Advocates Advocates for the Applicant Companies 30, Nizamuddin East, New Delhi - 110013 Email: anuj.shah@dmd.law Mobile: +91-9818188109

Moradabad (U.P.)

Lakra, Amroha (U.P.)

Branch: Civil Lines, Moradabad

Five Thousand Seven

Hundred Sixty Nine Only)

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTERESTS ACT-2002

Hereby this is to inform that under named borrowers/guarantors have not repaid principal and interest thereon of the loan Therefore the loan declares NPA. A notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 was issued at last known address, which was returned undelivered/refused. Therefore again we inform to under named borrowers/guarantors by this public notice that to pay the loan amount due including interest and other expenses as mentioned in this notice within 60 days from the date of publication of the notice otherwise bank will be bound to take action under 13(4) of the SARFAESI ACT 2002.

We invite your attention to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act which speaks about the time

Sr. No.	Name and address of the Borrower/ Mortgagor/Guarantor/ Branch Name	Description of the Mortgaged Property	Date of Demand Notice Amount o/s as mentioned in the notice u/s 13(2)
	(Borrower & Mortgagor), At : Bank Colony, Khushalpur, Opposite KK Public School (U.P.), Smt. Suman W/o Sh. Chandra Bhan Singh, At : Ward No. 3, Near Dropa Devi Market, Khushalpur,	Property Situated at EWS H.No.: B/217, Kashiram Nagar, Tehsil & District- Moradabad, (U.P.), Area 52.91 sq.mtrs., (In the name of Sh. Chandra Bhan Singh S/o Sh. Imarat Singh), Registered in Bahi No: 1, Jild No: 12355, Pages: 169-190, Serial No.: 8656, Dated 05.10.2019, Bounded as: North: H.No. B-218, South: H.No: B-216, East: Health Centre, West: Road 9 Meter Wide	Rs. 36,86,814.00/- as on 27.04.2023 with Future Intt. & Other Charges

Moradabad (U.P.), Area 60 sq.mtrs. (In the name of Chetram Singh S/o Sh. Ramesh Kumar), Registered in Bahi No: 01, Jild No: 14952, Pages: 41-72, Serial No: 1026, Dated 14.01.2019. Bounded as: North: Sadak 6 Meter Wide, South: LIG Plot No. 65. East: LIG Plot No. 77. West: LIG Plot No. 79

sq,mtrs.), (In the name of Sh. Rais Ahmad S/o Sh.

Amroha (U.P.), Area 17.50 sq.mtrs., (In the name of Sh. Suhail

Registered in Bahi No: 1, Jild No: 6087, Pages: 89-106, Serial

Smt. Idrisha, South: House of Varisaan Ishratunnisha, East

No: 9002, Dated 12.06.2013, Bounded as : North : House of

East: Bijnor Road, West: Property of Anwar Jalil

House of Mukir etc, West: Gali 5 Feet Wide

29.04.2023 Rs. 9,90,775.00/-Amroha (U.P.), Smt. Sahista w/o Sh. Haroon Ali Amroha (U.P.), Area 348.37 sq.mtrs., (In the name of Smt. Sahista w/o Sh. haroon Ali), Registered in Bahi No: 1, Jild No: 6478, Pages: 203-244, Serial No: 6055, Dated 23.04.2019, Bounded as: North: Plot of Israr, South: Remaining Araji of Seller, East: Rasta 15 Feet Wide, West: Khet Pappu

as on 28.04.2023 with Future Intt. & Other Charges 29.04.2023

02.05.2023

Rs. 21,17,856.00/-

as on 02.05.2023

with Future Intt.

& Other Charges

Rs. 16,70,185.00/as on 28.04.2023 with Future Intt. & Other Charges

28.04.2023 Rs. 6.03.584.00/as on 24.04.2023 with Future Intt.

Authorized Officer, Punjab National Bank

H.No.: 394, Mohalla- Lakra, Amroha (UP), Sh. Yameen), Registered in Bahi No: 1, Jild No: 182, Pages: 6-

- Lakra, Bijnor Road, Amroha (U.P.), Sh. Liyakat Ali North: Shop of Fakira, South: Shop of Mohd. Yameen,

Yameen S/o Sh. Alla Diya (Guarantor), At: Mohalla 80, Serial No: 4193, Dated 25.06.1999, Bounded as

5. M/s Suhail Nasir S/o Sh. Sayeed Ahmad Property Situated at Mohalla - Bazar Batwal, Near Jain Mandir,

Batwal, Amroha (U.P.), Smt. Hina W/o Sh. Suhail Nasir S/o Sh. Sayeed Ahmad & Smt. Hina w/o Sh. Suhail Nasir),

Place: Moradabad, Amroha

Notice is hereby given pursuant to Regulation the company will remain closed from 29 (1) read with Regulation 47 of the Securities Saturday, April 01, 2023 till Friday, 02nd and Exchange Board of India (Listing June, 2023 (Both days inclusive). Obligations and Disclosure Requirements The said notice may be accessed on the Regulations, 2015 that a meeting of the Board Company's website at www.jtel.co.in and of Directors of the Company will be held on may also be accessed on the MSEI Tuesday, 30th May, 2023 at Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina, New Delhi- 110028 at 04:00

P.M. to consider and approve Audited Standalone and Consolidated Financial



Total income from Operations


balance sheet of the previous year

Earning per Share (of 10 /- each)

Extraordinary items#)

Extraordinary items#)

Extraordinary items#)




The above is an extract of the detailed format of financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of

the SEBI (Listing obligations and disclosure requirement) regulations, 2015 for the quarter and year ended 31st March, 2023. The full of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of the stock Exchange and/or extra ordinary items adjusted in the statement of Profit and Loss in accordance with IND-AS rules,

whichever is applicable

On behalf of Board of Directors



And Rule 17(4) of Limited Liability Partnership Rules, 2009 AND IN THE MATTER OF INBORN REALITY INDIA LLP Having its Registered Office at

D-2061A, Block-D, Palam Vihar, Gurugram, Gurgaon-122017(HR) NOTICE Notice is hereby given to the Genera Public that the LLP under the provisions o Section 13(3) of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17 o Limited Liability Partnership rules, 2009 proposes to make application to the

Registrar of Companies in terms of the

Resolution passed at the Meeting of the partners held on Monday 01st Day of May, 2023 to enable the LLP to change its Registered Office from the 'State of Haryana to the 'NCT of Delhi. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of LLP may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavi stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar of Companies, Delhi, 4th Floor, IFCI Tower

publication of this notice with a copy of the same to the applicant at the Registered Office at the address mentioned below: (D-2061A, Block-D, Palam Vihar,

Nehru Place, New Delhi – 110019

within twenty one days from the date of

Name: Sanjay Madan

Date: 24/05/2023 Place: Gurgaon

Disha Soni

& Compliance Officer M. No.: A42944 FORM NO. NCLT - 3A ADVERTISEMENT DETAILING PETITION

पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank ...the name you can BANK upon ! Circle office : Ramganga Vihar, Kanth Road, Moradabad

(Borrower & Mortgagor), At : Lakri Fazalpur,

3. M/s Huma Poultry Farm (Borrower's Firm), At:

Branch: Gajraula Industrial Area, Amroha (U.P.)

M/s Rais Timber Store (Borrower's Firm), At

S/o Sh. Yameen (Proprietor & Mortgagor), At

S/o Sh. Shideki (Guarantor), At : Mohalla- Lakra,

(Borrower & Mortgagor), At : Mohalla - Bazar

Nasir (Guarantor & Mortgagor), At : Mohalla

Branch: Amroha Main Branch, Amroha (U.P.)

Near Masjid Village- Tokra Patti, Tehsil- Dhanaura,

(Proprietor & Mortgagor), At : H.No. 394, Mohalla-

UNDELIVERED DEMAND NOTICE

West: Road 9 Meter Wide Sh. Chetram Singh S/o Sh. Ramesh Kumar Property Situated at LIG H.No. 78, Sitapuri Das Sarai Yojna,

> A Residential/ Commercial Property Situated at Gata No: Village - Nagaliva Mev (Chakanwala to Gairaula Road).

Property Situated at Mohalla - Lakra, Bijnor Road, Bijnor Road, Lakra, Amroha (U.P.), Sh. Rais Ahmad | Amroha (U.P.), Area 148.22 sq.mtrs., (1/3 Part i.e. 49.40

& Other Charges

NOTICE OF PETITION A petition under Sections 230-232 read with other relevant provisions of the Companies Act, 2013 for sanctioning the Scheme of Amalgamation between Minda I Connect

I.A. 258 of 2022 seeking permission of Hon'ble NCLT to modify the Scheme of Amalgamation. Consequently, the Hon'ble NCLT directed the Applicant Companies to hold and convene fresh meetings of the shareholders and creditors of the respective

Place: New Delhi

Date: 24 May, 2023

सूचकांक में 18 अंक की मामूली तेजी



मुंबई, 23 मई (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सूचकांक मामूली 18 अंक की बढ़त में रहा। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक का ब्योरा जारी होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख

कारोबार के अंतिम घंटे में उतार-चढाव से तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक दिन के उच्च स्तर से नीचे आ गया और अंत में 18.11 अंक यानी 0.03 फीसद की मामूली बढ़त के साथ 61,981.79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 281.51 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 33.60 अंक यानी 0.18 फीसद की तेजी के साथ 18,348 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, आइटीसी, इंडसइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, विप्रो, इन्फोसिस और मारुति प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलाजीज, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और लार्सन एंड टुब्रो शामिल हैं।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि धातु, औषधि और वाहन क्षेत्रों में लिवाली से घरेलू बाजार सकारात्मक रुख के साथ स्थिर बंद हए।

रुपया 82.82 प्रति डालर पर लगभग स्थिर

मुंबई, 23 मई (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजार में स्थिरता के रुख के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार

में मंगलवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले दो पैसे की मामूली तेजी के 🔊 साथ 82.82 (अस्थायी) प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गया। बाजार सूत्रों ने

कहा कि डालर में मजबूती के कारण रुपए की तेजी सीमित रही।

सोना 350 रुपए टूटा, चांदी 660 रुपए लुढ़की

नई दिल्ली, 23 मई (भाषा)।

60,170 रुपए प्रति 10

रह

वैश्चिक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट आने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 350 रुपए के नुकसान के साथ 🧮

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,520 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 660 रुपए की गिरावट के साथ

72,880 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई।



पोलो व्यू बाजार में जायजा लेते सुरक्षाकर्मी तैनात।

राष्ट्रीय जांच एजंसी ने की घोषणा खालिस्तानी आतंकी की सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 मई।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में वांछित खालिस्तानी आतंकवादी के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एजंसी के मुताबिक, लुधियाना का निवासी कश्मीर सिंह गलवड़ी उर्फ बलबीर सिंह' पिछले साल 20 अगस्त को दिल्ली में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम

(यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में वांछित है।

जांच एजंसी के अनुसार, यह मामला खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन द्वारा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रची गई साजिश से संबंधित है। एनआइए के एक प्रवक्ता ने आरोपी की दो तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि गलवड़ी फरार है। वह एनआइए द्वारा दर्ज (देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से संबंधित) मामले में वांछित है।

स्टैंडएलोन

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने की सुविधा शुरू की

नई दिल्ली, 23 मई (भाषा)।

आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (आइटीआर) एक और चार आनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अन्य आयकर रिटर्न/फार्म के लिए सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी। विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आनलाइन आइटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों के आडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आइटीआर एक वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं।

'जम्मू-कश्मीर में विकास में तेजी से आतंक का तंत्र अलग-थलग पड़ा'

श्रीनगर, 23 मई (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर ने 30 वर्षों तक पाकिस्तान द्वारा राष्ट्र-प्रायोजित आतंकवाद को झेला है लेकिन सीमा पार समर्थन से फला-फुला आतंकवाद का पारिस्थितिकी तंत्र अब अलग-थलग कर दिया गया है। सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अब एक नया युग देख रहा है जिसने वृद्धि और शांति की असीम संभावनाएं खोल दी हैं।

उन्होंने यहां एसकेआईसीसी में जी20 देशों की पर्यटन पर कार्यकारी समृह की बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा, 'सभी धार्मिक समुदाय के साथ मिलकर शांतिपूर्ण निवास वाली इस भूमि ने तकरीबन 30 साल तक हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्र-प्रायोजित आतंकवाद को झेला है।' उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकासात्मक योजनाओं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रभावी प्रशासन से आतंकवाद की पारिस्थितिकी अब अलग-थलग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अन्याय, शोषण और भेदभाव को पुरी तरह खत्म कर दिया है जिसका समाज के कई वर्गों ने सात दशक तक सामना किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर का विकास इसके परिवर्तन की शुरुआत है। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कुछ उपलब्धियों के मामले में भारत के विकसित क्षेत्रों में शामिल है और 'हम आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूप से लोगों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

केनरा बैक Canara Bank

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति के लिए, धारा 13(4) के तहत

जैसा कि प्रतिभृतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुननिर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुकोद-13 (12) के अंतर्गत प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/जारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों,गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन-देन केनरा बैंक, संबंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित व्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

तरीनान खुष श्री आस तरीनान, 203131. जमानतकत 137, ऊंच 203131. लोन र 865093 2. उधारकर्ताः एम नगर, रूबी पॉर श्री. प्रोप. सर्ग	शाखा का नाम एवं ऋणी/मारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	नोटिस तिथि	बकाया राशि
उधारकर्ताः एम नगर, रुबी पॉर श्री. प्रोप. सर्ग	र्क्ताः बसीर अहमद पुत्र मोहम्मद वशीर, क्रंचा तरीनान, खुर्जा बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	संपत्ति नं. 1: एक आवासीय दो मंजिला आवासीय घर, वीचरिंग मुंसिपिल नं. 147, जिसका क्षेत्रफल 86.00 वर्ग मीटर, मोहल्ला ऊंचा तरीनान, करवा खुर्जा, परगंना और तहसील खुर्जा, जिला वुलंदराहर, मालिक श्री आस मोहम्मद पुत्र हाजी बसीर, संपत्ति की सीमाएं पूर्व: मंदूरी का घर, पश्चिम: रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर: मेहरबान का घर, दक्षिण: गली 5 फीट चौड़ी और अब्दुल सलाम का घर। संपत्ति नं. 2: आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर, नगर पालिका पुराना नंबर 152, नया नंबर 145 मोहल्ला ऊंचा तरीनान, करवा खुर्जा, परगंना और तहसील खुर्जा, जिला वुलंदराहर में रियत है। मालिक वसीर अहमद पुत्र मोहम्मद वशीर, संपत्ति की सीमाएं पूर्व: मली कची 6 फिट चौड़ी, पश्चिम: इस्माइल सेक्रेटरी का घर, उत्तर: सलाम का मकान, दक्षिण: सलाम का मकान।	03.01.2023 कब्जा लेने की तिथि 18.05.2023	रू०. 37,49,195.65 दिनांक 18.05.2023 तक + ब्याज एवं अन्य व्यय।
जलेलपुर-१, त	शाखाः खुर्जा (18650) एमएस डेकोरेटर्स, प्रो. सगीर पुत्र अब्दुल रशीद, मुगरी पॉटरी के पास, खुर्जा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 203131. सगीर पुत्र अब्दुल राशीद, 123 ऊंचा तरीनान, खुर्जा, दशहर, (वूपी) - 203131. ि मोहम्मद कामिल पुत्र शकी मोहम्मद, 120 , तहसील-अनूपशहर बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 202394.	सल हाड क्रमांक व. 15906 दिनाक 12.12.2014, वही नंबर 1 जिल्द संख्या 7889, पेज वं. 143-172, असरा वं. 175 का भाग, करना बहार चुंगी खुर्जा यूपी 203131, मालिक श्री पुत्र अब्दुल राशीद समीर और श्री मोहम्मद कामिल पुत्र शकी मोहम्मद। संपत्ति की सीमाएं पूर्वः गुरफान और इस्माइल की संपत्ति, पश्चिमः मल्लो देवी की संपत्ति, उत्तरः खूंवर सैन	03.03.2022 कब्बा लेने	रू०. 33,32,694.17 दिनांक 18.05.2023 तक + ब्याज एवं अन्य व्यय।

भारत की अर्थव्यवस्था 3,500 अरब डालर के पार : मूडीज

नई दिल्ली, 23 मई (भाषा)।

क्रेडिट रेटिंग एजंसी मुडीज ने मंगलवार को कहा कि भारत का सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) साल 2022 में 3,500 अरब डालर से अधिक रहा और अगले पांच वर्षों तक यह जी20 समृह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। अमेरिकी रेटिंग एजंसी ने एक शोध रिपोर्ट में भारत की वृद्धि रफ्तार को लेकर आशावादी नजरिया जताने के साथ निर्णय-प्रक्रिया में शामिल नौकरशाही के रुख को लेकर आशंका भी जताई है। उसने कहा कि नौकरशाही का लेटलतीफी वाला रवैया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) गंतव्य के तौर पर भारत के आकर्षण को कम कर सकता है।

कहा, नौकरशाही का लेटलतीफी वाला रवैया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य के तौर पर भारत के आकर्षण को कम कर सकता है।

मूडीज के मुताबिक, भारत की वृद्धि रफ्तार पर नौकरशाही की तरफ से लगाई जाने वाली अड़चनें लगाम लगा सकती हैं। लाइसेंस लेने और कारोबार शुरू करने की अनुमति प्रक्रिया में नौकरशाही की धीमी रफ्तार परियोजनाओं की स्थापना के समय को बढ़ा सकती है। मुडीज इन्वेस्टर सर्विस

ने रिपोर्ट में कहा कि निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में शामिल भारत की शीर्ष नौकरशाही इस क्षेत्र के इंडोनेशिया और विएतनाम जैसे दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले एफडीआइ गंतव्य के तौर पर भारत के आकर्षण को घटा देगी। हालांकि, भारत की एक बड़ी युवा व शिक्षित श्रमशक्ति, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण से आवास, सीमेंट व नई कारों के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ढांचागत क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ने से इस्पात व सीमेंट कारोबार और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण व ढांचागत क्षेत्रों में मांग इस दशक के बाकी समय में भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना 3-12 फीसद की दर से बढ़ेगी। इसके बावजूद भारत की क्षमता वर्ष 2030 तक चीन से पीछे ही रहेगी।

अडाणी समूह के शेयरों में तेजी बरकरार

अडाणी समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में तेजी का सिलसिला मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इसमें समृह की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज 13 फीसद से अधिक की वृद्धि

बीएसई में अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 13.19 फीसद चढ गया, जबिक अडाणी विल्मर के शेयर में 9.99 फीसद की बढ़त रही। अडाणी पावर पांच फीसद, अडाणी ट्रांसिमशन पांच फीसद, अडाणी ग्रीन एनर्जी पांच फीसद, अडाणी टोटल गैस पांच फीसद और एनडीटीवी 4.99 फीसद चढ़ गया। इनके साथ ही अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में 0.90 फीसद, अडाणी पोर्ट्स में 0.53 फीसद और एसीसी में 0.25 फीसद की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान समूह की कुछ कंपनियों के शेयरों में ऊपरी सर्किट भी लगा। यह अडाणी समूह की कंपनियों में तेजी का

समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष विवरण 31/03/2023 31/12/2022 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2022 लेखपरीक्षित लेखपरीक्षित अलेखपरीक्षित लेखपरीक्षित 1710.64 2118.58 1830.4 8001.30 6474.08 परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं अथवा 123.59 392.50 155.57 243.63 582.80 असाधारण मदों से पुर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं 155.57 243.63 582.80 392.50 123.59 अथवा असाधारण मदों से बाँद) कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं 118.68 183.99 415.12 297.60 अथवा असाधारण मदों से बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु) (कर के बाद) 87.16 118.41 185.33 415.58 299.38 लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी 1008.74 1008.74 856.59 441.00 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिक्ति आरक्षित) आय प्रति शेयर (रू 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल (रू): 1.17 1.82 4.12 2.95 ख) तरल (रू): 2.95 1.82 4.12 1.17

एवो इंडिया लिमिटेउ

सीआईएन: L25200UP1996PLC101013

पताः ए-7/36-39, जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया के दक्षिण,

इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपाउंड, गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश,

वेबसाइटः www.avrofurniture.com, ईमेलः info@avrofurniture.com, फोनः 0120-4376091

31 मार्च, 2023 की समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिए स्टैंडएलोन ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन) दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का स्तर है। 31 मार्च, 2023 की समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिए स्टैंडएलोन ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (www.nseindia.com) की वेबसाईट तथा बीएसई लि. (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

एव्रो इंडिया लिमिटेड

(रू लाख में)

स्थान : गाजियाबाद दिनांक: 23 मई, 2023

सुशील कुमार अग्रवाल (अध्यक और पूर्णकालिक निदेशक) डीआईएन : 00248707

(2) Dilluted

RITCO LOGISTICS LIMITED

Corporate Identity Number: L60221DL2001PLC112167

2.40

2.63

9.94

(In lakhs except El					
			Quarter Ended		
Particula	ars	31st March, 2023 (Audited)	31st Dec, 2022 (Unaudited)	31st March, 2023 (Audited)	
Total income from Operations		19,673.53	19,458.06	75,114.62	
Net Profit/(Loss) for the Period (Extraordinary items#)	Before Tax, Exceptional and/or	918.31	832.29	3,348.19	
Net Profit/(Loss) for the Period Befor Extraordinary items#)	e Tax (After Exceptional and/or	918.31	832.29	3,348.19	
Net Profit/(Loss) for the Period Afte Extraordinary items#)	r Tax (After Exceptional and/or	587.69	644.09	2,431.91	
Total Comprehensive Income for the for the period (After tax) and other co		587.67	639,20	2,436.72	
Reserve (excluding Revaluation rese balance sheet of the previous year	rve) as shown in the Audited		5		
Earning per Share (of 10 /- each)		2.40	263	9.94	

Additional information on standalone financial results is as follows:-

	Quarter Ended			Year ended	
Particulars	31st March, 2023 (Audited)	31st Dec, 2022 (Unaudited)	31st March, 2022 (Audited)	31st March, 2023 (Audited)	31st March, 2022 (Audited)
Total Income from Operations	19,673.53	19,458.06	17,411.29	75,114.62	59,329.04
Profit before Tax	954.75	835.08	774.86	3,387.42	2,220.10
Profit after Tax	624.13	646.88	578.26	2,471.14	1,627.78
Earning per Share (of 10/- each) (1) Basic (2) Dilluted	2.55 2.55	2.64 2.64	2.36 2.36	10.10 10.10	6.65 6.65

2. The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 22nd May, 2023 The above is an extract of the detailed format of financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of

March, 2023. The full of the quarterly and year ended financial results are available on the websites of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com # Exchange and/or extra ordinary items adjusted in the statement of Profit and Loss in accordance with IND-AS rules, whichever is applicable

the SEBI (Listing obligations and disclosure requirement) regulations, 2015 for the quarter and year ended 31st

On behalf of Board of Directors

Sanjeev Kumar Elwadhi तिथिः 24.05.2023 स्थानः फरीदाबाद Managing Director

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी सेक्टर-16 फरीदाबाद

आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी एससीओ 98 (प्रथम एवं द्वितीय तल) सेक्टर-16 मार्केट मार्केट फरीदाबाद-121002 (हरियाणा) "परिशिष्ट-IV-क" {नियम 8(6) का परन्तुक देखें} चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना ई-नीलामी दिगांक 09.06.2023 हेतु सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियमावली 2002) के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों

के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के अन्तर्गत बैंक के पास प्रभारित अवल परिसम्पत्तियों का विक्रय। भारतीय स्टेट बैंक (प्रतिभृत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत

निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का अधिग्रहण (सांकेतिक/भौतिक) कर लिया है। एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि ऋणकर्ताओं, गारंटरों एवं बंधककर्ताओं की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुग्तेय निम्नांकित राशि की वसूली करने हेत् बँक की देयराशियों की वसूली हेत् निम्न वर्णित प्रकरणों के अंतर्गत प्रभारित सम्पत्ति/यों के विकय का आयोजन दिनांक 09.06.2023 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "**वहां जो कुछ भी है"** आधार पर किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का अंकन नीचे किया गया है।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि/समयः 07.06.2023 को अप. 03:00 बजे से सार्य 04:00 बजे तक इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी के बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास पूर्व-बोली धराज जमा कर सकते हैं। पूर्व बोली धराज का क्रेडिट बोलीदाता को एमएसटीसी के बैंक खाता में भुगतान की प्राप्ति तथा ई-नीलामी वेबसाईटों पर ऐसी जानकारी के अद्यतनीकरण के उपरान्त ही दिया जायेगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है अतः बोलीदाताओं को अपने स्वयं के हित में सलाह है कि वे किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने हेत् अग्निम रूप में पूर्व-बोली धराज राशि जमा करें।

क. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटरों के नाम	बकाया देवराशियां, जिनकी वसूली हेतु सम्पत्ति/यां बेची जा रही हैं/हैं	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा स्वामित्व विलेख धारक का नाम	आरक्षित मृल्य (ह.) (जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जा सकती) धरोहर राजि धराज आरक्षित मृल्य का 10% बोली वृद्धि राजि	सम्पर्क व्यक्ति का नाम
1.	स्व० श्री दिलीप रंजन चक्रवर्ती	दिनांक 05.11.2022 तक भावी ब्याज एवं अन्य अतिरिक्त प्रभार	मकान नम्बर 71, (बेसमेंट एवं भूतल), ब्लॉक-3, इरोस गार्डन कॉलोनी, चार्म बुड विलेज, लखरपुर, सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-पिन 121009. क्षेत्रफल 204.4 वर्ग गज, कुल आच्छादित क्षेत्र 2538 वर्ग फुट	< 13,20,000/-	सुनील कुमार दिवाकर मोबाइलः 9766150990

खाता/वॉलेट जिसमें ईएमडी जमा की जानी है: बोलीदाता का अपना वॉलेट जो मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के पास इसकी ई-नीलामी साइटः https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर NEFT/RETS के माध्यमों से पंजीकृत है आरक्षित मुल्य की ईएमडी को बोलीदाताओं द्वारा अपने/उनके/उसके बैंक से एनईएफटी के माध्यम से मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की इसकी अपनी ई-नीलामी साइटः https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर/के पास अनुरक्षित अपने/उनके/उसके बोलीदाता खाते पर उत्पन्न किये गये चालान के माध्यमों से अंतरित किया जाएगा। किसी भी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033-40602403, 033-40645316 पर कॉल करें और/या प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क व्यक्ति) से सम्पर्क करें।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है: (1) ई-नीलामी का आयोजन **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर की जा रही है और "ऑप लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से उसके वेब पोर्टल:

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर आयोजित की जाएगी। (2) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार यहाँ सम्पत्ति/याँ पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छ्क बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र पृष्ठताष्ठ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन वैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और न ही संस्थापित करता हुआ माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। (3) सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिकी प्रतिफल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि जमा पर कोई व्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मुल्य की स्वीकृति पर तुरन्त बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मुल्य शेष, बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चुक होने पर पहले से जमा की गई पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा और चुककर्ता बोलीदाता का संपत्ति/राशि के सम्बन्ध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। (4) बिकी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेब पोर्टलः https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp तथा वैंक के पोर्टलः

https://www.sbi.co.in पर उपलब्ध लिंक देखें।

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी, सेक्टर-16, फरीदाबाद

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत

लगातार तीसरा कारोबारी दिन रहा। इन तीन दिनों में समूह के कुल

बाजार मूल्यांकन में 1,77,927.29 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई।

इस तरह समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों का सम्मिलित रूप से बाजार

मुल्यांकन बढ़ कर 10,79,497.65 करोड़ रुपए हो गया।

मुंबई, 23 मई (भाषा)।

नई दिल्ली. 23 मई (भाषा)।

के साथ सबसे आगे रही।

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में तेज रफ्तार ट्रक एक कार से टकरा गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई जबकि सात अन्य लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा राज्य की राजधानी मुंबई से करीब 650 किलोमीटर दूर अमरावती के खल्लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर-अंजनगांव रोड पर सोमवार रात करीब 11 बजे हुआ। अधिकारी ने कहा कि हादसे में दो बच्चों, एक महिला और दो पुरुषों की मौत हो गई, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। वे अंजनगांव में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद दरियापुर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह सड़क किनारे जा गिरा।

Place: Gurugram Date: 24.05.2023

www.readwhere.com